

आज ही

अपने बचत खाता पर **7.00% प्रतिवर्ष***
तक कमाना शुरू करें!

बचत खाता की ब्याज दरें	
निवासी और अनिवासी भारतीयों के लिए	
बचत खाता बैलेंस के लिए स्लेब (₹ में)	ब्याज दरें (प्रतिवर्ष)* (12-12-25 से प्रभावी)
₹5 लाख तक	2.75%
₹5 लाख से ₹10 लाख तक	5.50%
₹10 लाख से ₹50 लाख तक	6.00%
₹50 लाख से ₹3 करोड़ तक	6.50%
₹3 करोड़ से ₹25 करोड़ तक	6.75%
₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ तक	7.00%
₹50 करोड़ से ₹75 करोड़ तक	5.00%
₹75 करोड़ से अधिक	5.00%

एसबीएम बैंक इंडिया, भारत का सबसे युवा विदेशी बैंक और आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नियम के तहत स्थापित पहला यूनिवर्सल बैंक है, जिसने **भारत में अपने संचालन के 7 वर्ष** से अधिक पूरे कर लिए हैं। यह बैंक **एसबीएम समूह का हिस्सा है, जो एक वैश्विक बैंकिंग समूह** है और जिसकी उपस्थिति पांच दशकों से अधिक समय से है। एसबीएम समूह मॉरीशस में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान है और मॉरीशस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है।